

प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक-07.07.2021

थाना म्योरपुर पुलिस तथा वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दो नफर अंतर्राज्यीय

कछुआ तस्कर गिरफ्तार

आज दिनांक 07.07.2021 को वन दरोगा विजेन्द्र कुमार मय हमराह ओमप्रकाश जायसवाल रनटोला तिराहे पर मौजूद थे कि थाना म्योरपुर पुलिस के उ0नि0 मिट्टू प्रसाद मय हमराह हे0का0 जितेन्द्रनाथ राम रनटोला पहुँचे तिराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से मुर्धवा मोड़ की तरफ बोरे मे कछुए भरकर छत्तीसगढ़ ले जा रहे हैं। इसी दौरान एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति आते हुए दिखे जिनके द्वारा पुलिस टीम/वन विभाग की टीम को देखकर भागने का प्रयास किया गया किन्तु मौके पर मौजूद टीम द्वारा उन्हें रोककर घेरकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 02 बोरे मे कुल 42 अदद कछुए बरामद किया गया। पूछताछ मे उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग कछुओ को छत्तीसगढ़ मे बेचने के लिए ले जा रहे थे। उक्त बरामदगी के सम्बंध मे थाना म्योरपुर पर मु0अ0सं0 38/2021 धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

विवरण बरामदगी -

01. दो बोरे मे कुल 42 अदद कछुआ
02. एक अदद मोटरसाइकिल (CG 15 CA 1176)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस/वन विभाग टीम का विवरण -

01. उ0नि0 मिट्टू प्रसाद, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र।
02. हे0का0 जितेन्द्र नाथ राम, थाना म्योरपुर, जनपद सोनभद्र।
03. वन दरोगा विजेन्द्र कुमार रेंज म्योरपुर।
04. आदेश पालक ओमप्रकाश जायसवाल (बीट प्रभारी कटौंधी)

अभियुक्त का विवरण

01. प्राणतोष विश्वास पुत्र स्व0 पंचान विश्वास उम्र 40 वर्ष निवासी कमलापुर थाना रामानुजगंज, जनपद बलरामपुर, छत्तीसगढ़।
02. गौरंग मण्डल पुत्र गनेश मण्डल उम्र 37 वर्ष निवासी कृष्णनगर थाना रामानुजगंज, जनपद बलरामपुर, छत्तीसगढ़।